




**Swami Keshvanand Institute of Technology,
Management & Gramothan, Jaipur**



Annual Report



IE Student's Chapter

Department of Electronics & Communication Engineering

Faculty Advisor's IE Student's Chapter

Dr. Swati Arora

Ms. Manju Choudhary

Mr. Abhinandan Jain

Session 2024-25

Table of Content

S.NO.	Particular(s)	Date of Event	Page No.
1	ISRO's Chandrayaan Missions and Microwave Remote Sensors: An Expedition to Space	23 rd August 2024	3-9
2	Poster Presentation Competition :"Advances in Optical Communication"	19th October, 2024	10-14

Report on

Expert Talk on “ISRO’S Chandrayaan Missions and Microwave Remote Sensors: An Expedition to Space”

Date, Time and Venue of the event: - Friday, 23rd August 2024/ 12:00 -12:45 PM /JC Bose (Online Session) Auditorium

Level of the event: - College level

Event brochure / banner:-

**SKIT, Jaipur**
www.skit.ac.in

**1** A++
NAAC

6 Engineering Programmes ACCREDITED by NBA (National Board of Accreditation)

47 LPA Best Placements Highest Package (Batch 2023)



"NATIONAL SPACE DAY"



Harshita Tolani
Scientist | ISRO | RF Engineer

SWAMI KESHVANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND GRAMOTHAN, JAIPUR

IEI (EC) Student Chapter, SKIT

Presents

EXPERT TALK

ISRO'S CHANDRAYAAN MISSIONS AND MICROWAVE REMOTE SENSORS: AN EXPEDITION TO SPACE

 **23 August 2024**

 **J.C. Bose**

 **12 PM - 12:45 PM**

(Online session)

STUDENT COORDINATOR

Aastha Sharma
(9610330424)

Aniket Raj
(7004498871)

Nainika Agarwa
(9116017683)

FACULTY COORDINATOR

Dr. Swati Arora

Mr. Abhinandan Jain

Ms. Manju Choudhary

Details/List of invited guest/speakers:-
Ms. Harshita Tolani

**Scientist & RF Engineer,
Space Applications Centre , Ahmedabad, ISRO**

Objective of the event:- IE(I) student chapter of Swami Keshvanand Institute of Engineering and Technology Management and Gramothan, Jagatpura , rganized an interactive Expert Talk on “ISRO’S Chandrayaan Missions and Microwave Remote Sensors: An Expedition to Space “ Friday, 23rd August 2024. To gain knowledge about RF and microwave engineering and the Launching mechanism of Chandrayaan-3.

Details (Execution):-

National Space Day was celebrated by Optica Student Chapter and IE(I)-ECE Student chapter of Swami Keshvanand Institute of Technology, Management & Gramothan, Jaipur on 23rd August 2024 to commemorate the successful moon landing of ISRO’s Vikram Lander from Chandrayaan-3. The event began with an inspiring keynote lecture on “ISRO’s Chandrayaan Missions and Microwave Remote Sensors: An Expedition to Space” by esteemed guests Ms. Harshita Tolani, Scientist/Engineer ‘SG’ and Head, Microwave Sensors Receiver Division, Space Applications Centre, Indian Space Research Organization (SAC/ISRO). She shared the successful journey of Chandrayan mission and role of Microwave sensors in this. She also emphasized that ISRO’s Chandrayaan missions have not only propelled India to the forefront of lunar exploration but have also demonstrated the importance of microwave remote sensing in space missions. The combination of these advanced technologies continues to contribute to humanity’s understanding of the moon and beyond.

Details/List of teacher participants:-

Sr. No.	Name of Teacher	Branch
1	Ms. Priyanka Sharma	ECE
2	Dr. Rukhsar Zafar	ECE
3	Dr. Swati Arora	ECE
4	Dr. Praveen Kumar Jain	ECE
5	Ms. Manju Choudhary	ECE
6	Mr. Abhinandan Jain	ECE
7	Dr. Kiran Rathi	ECE

Attendance sheet of participants:-

S.No	Name of Student	Roll No	Department	Semester
1	Aagam jain	22ESKEC001	ECE	V
2	Abhi Kumar Gupta	22ESKEC004	ECE	V
3	Akshat gautam	22ESKEC008	ECE	V
4	Ankit Singhal	22ESKEC012	ECE	V
5	Apoorv yadav	22ESKEC016	ECE	V

6	Ashita Bansal	22ESKEC01 9	ECE	V
7	Babit sharma	22ESKEC02 1	ECE	V
8	Bhavesht Gupta	22ESKEC02 2	ECE	V
9	Bhavya Agarwal	22ESKEC02 3	ECE	V
10	Darsh Agrawal	22ESKEC02 5	ECE	V
11	Darshan khandelwal	22ESKEC02 6	ECE	V
12	Deepak khinchi	22ESKEC02 7	ECE	V
13	Deepak Kumar Sharma	22ESKEC02 8	ECE	V
14	Divyansh Jain	22ESKEC03 3	ECE	V
15	Dushyant Choudhary	22ESKEC03 4	ECE	V
16	Harsh Sharma	22ESKEC03 9	ECE	V
17	Harshit agarwal	22ESKEC04 0	ECE	V
18	Harshita Khatkar	22ESKEC04 1	ECE	V
19	IMANSHI BHATRA	22ESKEC04 3	ECE	V
20	Juhi garg	22ESKEC04 5	ECE	V
21	Kartik Sharma	22ESKEC04 6	ECE	V
22	Keertee Bansal	22ESKEC04 7	ECE	V
23	Khushi Sharma	22ESKEC05 1	ECE	V
24	Khwaish Saini	22ESKEC05 2	ECE	V
25	Manish Singh	22ESKEC05 5	ECE	V
26	Manisha	22ESKEC05 6	ECE	V
27	Manvendra Singh Chauhan	22ESKEC05 7	ECE	V
28	Md rafid halder	22ESKEC05 8	ECE	V
29	MINUK SONI	22ESKEC05 9	ECE	V
30	Mohini mangal	22ESKEC06 0	ECE	V
31	Mohit Kumar Prajapati	22ESKEC06 1	ECE	V
32	Rahul	22ESKEC06 9	ECE	V

33	Ridhi Gandhi	22ESKEC07 1	ECE	V
34	Sahil Bohra	22ESKEC07 5	ECE	V
35	Sahil bohra	22ESKEC07 5	ECE	V
36	Sandeep Kumar	22ESKEC07 6	ECE	V
37	Shivam Kumar	22ESKEC07 9	ECE	V
38	Satvik Meena	22ESKEC07 9	ECE	V
39	Soumya Bansal	22ESKEC08 3	ECE	V
40	Tisha saini	22ESKEC09 1	ECE	V
41	Tushar jain	22ESKEC09 2	ECE	V
42	Vatsal Vashishtha	22ESKEC09 4	ECE	V
43	Hitesh kumar	22ESKEC30 3	ECE	V
44	Aastha Sharma	23ESKEC00 1	ECE	III
45	Aayush Jha	23ESKEC00 2	ECE	III
46	Abhimanyu Singh Rathore	23ESKEC00 3	ECE	III
47	Abhishek Prajapat	23ESKEC00 4	ECE	III
48	Aditi Tripathi	23ESKEC00 5	ECE	III
49	Aditya Kumar Singh	23ESKEC00 6	ECE	III
50	Aditya Singh	23ESKEC00 7	ECE	III
51	Akansha singhal	23ESKEC00 9	ECE	III
52	Aman Agarwal	23ESKEC01 0	ECE	III
53	Aman Bansal	23ESKEC01 1	ECE	III
54	Aniket Raj	23ESKEC01 4	ECE	III
55	Ayushi Sonkhiya	23ESKEC01 9	ECE	III
56	Bhavesh Kumar khatri	23ESKEC02 1	ECE	III
57	Chetan mudgal	23ESKEC02 5	ECE	III
58	Chirag vijay	23ESKEC02 8	ECE	III
59	Dev patodia	23ESKEC03 1	ECE	III

60	Dhruv Rathore	23ESKEC03 2	ECE	III
61	Divyam Singh Chheepa	23ESKEC03 3	ECE	III
62	GAURAV SINGH SHEKHAWAT	23ESKEC03 5	ECE	III
63	Himanshu Choudhary	23ESKEC03 9	ECE	III
64	Kanhaiya Gupta	23ESKEC04 3	ECE	III
65	Karan bagra	23ESKEC04 5	ECE	III
66	Kashak Joshi	23ESKEC04 6	ECE	III
67	keshav soni	23ESKEC04 8	ECE	III
68	KULDEEP Tinker	23ESKEC04 9	ECE	III
69	LOVE KUMAR BANSAL	23ESKEC05 1	ECE	III
70	Mayank Charan	23ESKEC05 4	ECE	III
71	Mo Yunus	23ESKEC05 7	ECE	III
72	Mudita Saini	23ESKEC05 8	ECE	III
73	Naman balana	23ESKEC06 0	ECE	III
74	Nishchal Goyal	23ESKEC06 2	ECE	III
75	Nitin kumar meena	23ESKEC06 3	ECE	III
76	Prabhav Sharma	23ESKEC06 6	ECE	III
77	Prakhar jain	23ESKEC06 7	ECE	III
78	Prakhar jain	23ESKEC06 7	ECE	III
79	Praveen Singh	23ESKEC06 8	ECE	III
80	Priyanshu Lohmi	23ESKEC06 9	ECE	III
81	Rajvardhan Singh	23ESKEC07 1	ECE	III
82	Sameer Kothari	23ESKEC07 3	ECE	III
83	Samik Choudhary	23ESKEC07 4	ECE	III
84	Samyak Jain	23ESKEC07 5	ECE	III
85	Sarika goyal	23ESKEC07 6	ECE	III
86	Sharad Singhal	23ESKEC07 7	ECE	III

87	Shipra Pal	23ESKEC07 8	ECE	III
88	Shreyansh sharma	23ESKEC08 0	ECE	III
89	Sourav Pilania	23ESKEC08 2	ECE	III
90	Sourav Pilania	23ESKEC08 2	ECE	III
91	Suhana bhati	23ESKEC08 3	ECE	III
92	Sujal kumawat	23ESKEC08 4	ECE	III
93	Sujal kumawat	23ESKEC08 4	ECE	III
94	Sumit Kumar Dixit	23ESKEC08 5	ECE	III
95	Tanuj Gupta	23ESKEC08 6	ECE	III
96	Ujjwal Sharma	23ESKEC08 7	ECE	III
97	Vaibhav sharma	23ESKEC08 9	ECE	III
98	Vinay sharma	23ESKEC09 0	ECE	III
99	Yash Mangal	23ESKEC09 2	ECE	III
100	Yogita keswani	23ESKEC09 4	ECE	III
101	Abhay Pratap Singh Bhati	23ESKEC30 1	ECE	III
102	Gurushi Bhardwaj	23ESKEC30 3	ECE	III
103	Shivendra Singh Parmar	23ESKEC30 6	ECE	III
104	Mahek jain	23ESKEC30 7	ECE	III
105	Piyushkumawat	23ESKEE053	ECE	III

Details of winners / prize distribution:- NA

Glimpses of event:-





Media Coverage:

एसकेआईटी में मनाया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस

जयपुर। (आस-पास ब्यूरो) स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड ग्रामोथान, जयपुर में ऑप्टिका स्टूडेंट चैप्टर और इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर (इंडिया) स्टूडेंट चैप्टर द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एसजी' तथा माइक्रोवेव सेंसर रिसीवर डिवीजन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, (इसरो/एसएसओ) की प्रमुख हर्षिता तोलानी, द्वारा इसरो के चंद्रयान मिशन और माइक्रोवेव रिमोट सेंसर: अंतरिक्ष के लिए एक अभियान' विषय पर एक प्रेरणादायक व्याख्यान के साथ हुई। उन्होंने चंद्रयान मिशन की सफल यात्रा और इसमें माइक्रोवेव सेंसर की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने इस बात



पर भी जोर दिया कि इसरो के चंद्रयान मिशन ने न केवल भारत को चंद्र अन्वेषण में सबसे आगे बढ़ाया है, बल्कि अंतरिक्ष अभियानों में माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के महत्व को भी प्रदर्शित किया है। इस विशेषज्ञ व्याख्यान के बाद 'अंतरिक्ष अन्वेषण' पर प्रस्तुति प्रतियोगिता

हुई, जिसका उद्देश्य छात्रों के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण, तकनीकी प्रगति और भविष्य के लिए उनके निहितार्थों के बारे में जिज्ञासा और रुचि जगाना था। इसने छात्रों को जटिल विषयों को सुलभ और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करते हुए अपनी समझ और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के

लिए एक मंच प्रदान किया। प्रतियोगिता का समापन एक पुरस्कार समारोह के साथ हुआ, जहां शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. स्वाति अरोड़ा, प्रियंका शर्मा, अभिनंदन जैन और डॉ. किरण राठी ने किया।

एसकेआईटी में अंतरिक्ष दिवस पर व्याख्यान

जयपुर (सीमा सन्देश)।

स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड ग्रामोथान, जयपुर में ऑप्टिका स्टूडेंट चैप्टर और इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर (इंडिया) स्टूडेंट चैप्टर द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। वैज्ञानिक/इंजीनियर ह्याएसजी तथा माइक्रोवेव सेंसर रिसीवर डिवीजन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, (इसरो/एसएसओ) की प्रमुख हर्षिता तोलानी ने 'इसरो के चंद्रयान मिशन और माइक्रोवेव रिमोट सेंसर: अंतरिक्ष के लिए एक अभियान'



विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने चंद्रयान मिशन की सफल यात्रा और इसमें माइक्रोवेव सेंसर की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसरो के चंद्रयान मिशन ने न केवल भारत को चंद्र अन्वेषण में सबसे आगे बढ़ाया है, बल्कि अंतरिक्ष अभियानों में माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के महत्व को भी प्रदर्शित किया है। अंतरिक्ष अन्वेषण

पर प्रतियोगिता हुई। इसने छात्रों को जटिल विषयों को सुलभ और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करते हुए अपनी समझ और रचनात्मकता को प्रदर्शित किया। प्रतियोगिता में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संचालन डॉ. स्वाति अरोड़ा, प्रियंका शर्मा, अभिनंदन जैन और डॉ. किरण राठी ने किया।


राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन

जयपुर । स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ऑप्टिका स्टूडेंट चैप्टर और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर (इंडिया) स्टूडेंट चैप्टर द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। कार्य म की शुरुआत अतिथि इसरो की सदस्य हर्षिता तोलानी ने की। उन्होंने द्व 'इसरो के चंद्रयान मिशन और माइ वेव रिमोट सेंसर: अंतरिक्ष के लिए एक अभियान' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने चंद्रयान मिशन की सफल यात्रा और इसमें माइ वेव सेंसर की भूमिका पर चर्चा की।

Feedback from participants:


How will you rate today's lecture (1-5) 5-Highest, 1-Lowest

105 responses



was the topic relevant?

105 responses



Signature of Event Coordinator:-

(Dr. Swati Arora)

(Mr. Abhinandan Jain)

(Ms .Manju Choudhary)

Poster Presentation Competition (OPTICA STUDENTS CHAPTER)

Date of the event: 19th October

Time of the event: 9am to 10am

Venue of the event: Civil Block

Level of the event: - Inter College Level

Poster of the event: -



**SWAMI KESHVANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY,
MANAGEMENT & GRAMOTHAN, JAIPUR**

**OPTICA STUDENT CHAPTER, SKIT
& IEI STUDENT CHAPTER, SKIT
Organizing**

**Poster presentation competition On
"Advances in optical communication"**

IN ASSOCIATION WITH

OPTICA STUDENT CHAPTER, MNIT

19TH OCT 2024

VENUE: CIVIL BLOCK, SKIT JAIPUR

"Cash Prize for Winner and Runner Up"

FOR QUERIES –

Scan QR For Registration

**Agravi Yadav (+91 8306531658)
Harsh Sharma (+91 8824679870)
Harsh kumar(+91 6376322445)
Sandesh Singodiya(+9182900 55105)**



Objective of the event:-

The objective of the Poster Presentation Competition on "Advances in Optical Communication" was to bring together students from various streams to showcase their work and engage in discussions on emerging trends and technologies in the field of optical communication. The event aimed to provide a platform for participants to present innovative ideas and deepen their understanding of optical communication technologies. Additionally, the competition sought to explore the potential of optical communication in addressing complex challenges and its role in shaping the future of communication systems.

Details (Execution):-

The participants were informed to be present at the venue. They were asked to fill out the attendance sheet to confirm their active participation. The guest for the event, Mr. Rajesh Kr. Panwar, ITS, IES - 1992, and Retired PGM of BSNL (Rajasthan Telecom Circle), arrived and was introduced to the participants. Mr. Panwar reviewed the participants' posters as they described their work to him in detail. The students explained their research and the concepts behind their posters. Mr. Panwar engaged with the students by asking insightful questions about their work, encouraging them to elaborate further on their ideas and methodologies. The students appreciated the interaction and enjoyed answering his questions. This engagement helped them refine their concepts and deepened their understanding of optical communication, while also sparking their interest in the field. At the end of the event, the winners of the Poster Presentation Competition were announced and awarded cash prizes.

Details/List of teacher participants :-

Details/List of teacher participants:-

Sr. No.	Name of Teacher	Branch
1	Dr. Rukhsar Zafar	ECE
2	Dr. Kiran Rathi	ECE
3	Ms. Priyanka Sharma	ECE
4	Dr. Swati Arora	ECE
5	Abhinandan Jain	ECE

List of students participants :-

S.No	Name of Student	Department	Year and Institute
1	Babit sharma	ECE	3 rd (SKIT)
2	Gourvangi Sharma Aman Gaur Akshat Gautam	ECE	3 rd (SKIT)
3	Utkarsh Jindal , Pahal Bhatt, Sumit Kr. Dixit	ECE	2nd (SKIT)
4	Keshav Toshniwal	ECE	3rd (SKIT)
5	Piyush Kumawat	ECE	2nd (SKIT)
6	Arnav Dadhich	ECE	3rd (SKIT)
7	Aayush Arora Devendra Rewar	ECE	3rd (SKIT) 3rd (SKIT)
8	Khushi Sharma	ECE	3rd (SKIT)
9	Aaniya Saxena	ECE	3rd (SKIT)
10	Anushka Prajapati	ECE	3rd (SKIT)
11	Akshita Jain	ECE	3rd (SKIT)
12	Nikita	ECE	2nd (SKIT)
13	Abhay Pratap Singh Bhati	ECE	2nd (SKIT)
14	Mayank Sharma	ECE	2nd (SKIT)
15	Priyanka Kavar Mahek Jain	ECE	2nd (SKIT)
16	Sachin Choudhary Rudraksh Dusad Shubham Saini	ECE	2nd (SKIT)
17	Mayank Charan Akansha singhal	ECE	2nd (SKIT)
18	Abhishek Prajapat Aayush Jha Aditya Kumar Singh	ECE	2nd (SKIT)
19	Sanjana Sharma Srishti Gupta	ECE	3rd (JECRC)
20	Pratham Ganesh Dani Dushyant K Paliwal	ECE	4th (MNIT)
21	Deepak Kumar Sharma	ECE	3rd (SKIT)

Winner List :-

SR NO.	Winner Name	Position	Year
1	Karan Kishor	1st	4th (MNIT)

2	Babit Sharma	2nd	3rd (SKIT)
3	Sanjana Sharma Srishti Gupta	3rd	3rd (JECRC)

Feedback of the event:-

The event was very fun and knowledgeable for the students. They really liked the Poster Presentation Competition as it gave them the opportunity to showcase their work on optical communication. The students were excited to explain their posters, as it allowed them to share their innovative ideas and research findings.

Photos of event:-



Media Coverage:

एसकेआईटी तथा आईई.स्टूडेंट चैप्टर ने एमएनआईटी ऑप्टिका स्टूडेंट चैप्टर के सहयोग से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में प्रगति पर पोस्टर प्रस्तुति

P3 Police Public Politics

जयपुर। स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोथान जयपुर में अभियांत्रिकी एवं संचार विभाग के ऑप्टिका स्टूडेंट चैप्टर एस.के.आई.टी तथा आई. ई.स्टूडेंट चैप्टर ने एमएनआईटी ऑप्टिका स्टूडेंट चैप्टर के सहयोग से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में प्रगति पर पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह आयोजन विभिन्न संस्थान के छात्रों को अपने पोस्टर प्रस्तुत करने और ऑप्टिकल संचार के क्षेत्र में उभरते रुझानों, प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर चर्चा में शामिल होने के लिए आयोजित किया गया। इसने प्रतिभागियों के लिए नवीन विचारों को साझा करने, ऑप्टिकल संचार प्रौद्योगिकी की भविष्य की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। कार्यक्रम के अतिथि श्री राजेश कुमार पंवार, आईटीएस, आईईएस - 1992 तथा बीएसएनएल (राजस्थान टेलीकॉम सर्कल) के सेवानिवृत्त



पी.जी.एम थे। कार्यक्रम की शुरुआत में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुकेश अरोड़ा ने श्री पंवार का स्वागत किया और अपने उत्साहवर्धक शब्दों से प्रतिभागियों को प्रेरित किया।

श्री पंवार ने प्रतिभागियों के पोस्टरों की समीक्षा की और प्रतिभागियों ने उन्हें अपने काम के बारे में विस्तार से बताया। पोस्टर प्रदर्शन के उपरांत श्री पंवार ने ऑप्टिकल संचार में प्रगति विषय पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया। जिसमें उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर संचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने फाइबर

नेटवर्क को इंस्टॉल करने की इंजीनियरिंग चुनौतियों जैसे कि स्प्लिसिंग और सिग्नल स्ट्रथ को बनाए रखने पर भी चर्चा की। श्री पंवार ने 5जी नेटवर्क और अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों के समर्थन में ऑप्टिकल फाइबर की भविष्य की भूमिका पर चर्चा करके छात्रों का ज्ञान वर्धन किया। कार्यक्रम के अंत में, पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता के विजेताओं को रोमांचक पुरस्कार दिए गए। इस आयोजन के संकाय समन्वयक डॉ. किरण राठी, श्रीमती मंजू चौधरी और श्रीमती प्रियंका शर्मा थी।

Certificate of Event

